

जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड

सीआईएन: L74899DL1995PLC064007

रजि. कार्यालय: 128, प्रथम तल, शिवा मार्केट, पीतमपुरा, दिल्ली-110034

फोन: 011-47330330 ईमेल: cs@grmrice.com

वेबसाइट: www.grmrice.com

पोस्टल बिलेट एवं रिमोट ई-वोटिंग की सूचना

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 और 110 के प्रावधानों और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 (अधिनियम) के नियम 20 और 22 के साथ पठित अन्य सभी प्रावधानों के अनुसार सूचना दिया जाता है। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (सूचीबद्धता विनियम) विनियम 44, (नियम) 8 अप्रैल, 2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 के साथ सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 22/2020 दिनांक 15 जून, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 33/2020 दिनांक 28 सितंबर, 2020 और सामान्य परिपत्र संख्या 39/2020 दिनांक दिसंबर 31, 2020, 10/2021 दिनांक 23 जून, 2021, 20/2021 दिनांक 8 दिसंबर, 2021, 3/2022 दिनांक 5 मई, 2022 और 11/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अन्य प्रासंगिक परिपत्र (एनएसई सफुलर), जिसमें किसी भी वैधानिक संशोधन, कुछ समय के लिए संशोधन या पुनः अधिनियमितियाँ और अन्य लागू कानून और नियम शामिल हैं, यदि कोई हो, तो कंपनी ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से पोस्टल बिलेट के माध्यम से पोस्टल बिलेट नोटिस में निर्धारित संकल्पों के लिए सदस्यों की मंजूरी मांग रही है।

एनएसई परिपत्रों के अनुपालन में, कंपनी ने 09 फरवरी, 2024 को इलेक्ट्रॉनिक मोड में केवल उन सदस्यों को ई-वोटिंग के लिए व्याख्यात्मक विवरण और निर्देशों के साथ डाक मतपत्र नोटिस भेजने का काम पूरा कर लिया है, जिनके नाम सदस्यों के रजिस्टर/सूची में दिखाई देते हैं। एनएसईएल और सीडीएसएल से प्राप्त लामार्थी मालिकों की संख्या और जिनके ईमेल पते (सफुलर), 02 फरवरी, 2024 (कट-ऑफ तिथि) तक कंपनी के पास उपलब्ध हैं।

कंपनी केवल रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से पोस्टल बिलेट नोटिस में उल्लिखित मामलों पर साधारण समाधान के माध्यम से सदस्यों की सहमति चाहती है। पोस्टल बिलेट नोटिस की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट www.grmrice.com और स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) यानी www.nseindia.com, जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं और एनएसईएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

कंपनी ने अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक और सुरक्षित तरीके से वोट डालने में सक्षम बनाने के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एनएसईएल की सेवाएं ली हैं।

रिमोट ई-वोटिंग सुविधा निम्नलिखित अवधि के दौरान उपलब्ध है:

रिमोट ई-वोटिंग की शुरुआत	गुरुवार, फरवरी 15, 2024, प्रातः 09:00 बजे (भारतीय समय के अनुसार)
रिमोट ई-वोटिंग का निष्कर्ष	शुक्रवार, 15 मार्च 2024, सायं 06:00 बजे। (भारतीय समय के अनुसार)

जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में डिजिटली प्रमाणितियों के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत करें। भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में, सदस्यों से अनुरोध है कि वे सभी संयंत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने के लिए अपने वेब ईमेल-आईडी के साथ हमारे आर्टीए को info@masserv.com पर या हमारे कंपनी सचिव को cs@grmrice.com पर अपना अनुरोध प्रस्तुत करें।

बोर्ड ने पोस्टल बिलेट प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए मेसर्स देवेश अरोड़ा एंड एसोसिएट्स के कंपनी सचिव श्री देवेश अरोड़ा को सौंपकर नियुक्त किया है।

जैसा कि ऊपर बताया गया है, रिमोट ई-वोटिंग शुक्रवार, 15 मार्च 2024 को शाम 05:00 (भारतीय समय के अनुसार) बजे समाप्त होगी। उसके बाद रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को रिमोट ई-वोटिंग के लिए अक्षम कर दिया जाएगा और सदस्यों को उक्त तिथि और समय के बाद इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

पोस्टल बिलेट का परिणाम रविवार, 17 मार्च, 2024 को या उससे पहले घोषित किया जाएगा। उपरोक्त परिणाम स्क्रीन/इजेंस रिपोर्ट के साथ कंपनी की वेबसाइट www.grmrice.com और एनएसईएल की वेबसाइट पर परिणाम जारी होने के तुरंत बाद प्रदर्शित किया जाएगा। घोषित, कंपनी साथ ही उन स्टॉक एक्सचेंजों को भी परिणाम बताएगी जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं।

ई-वोटिंग से जुड़ा कोई भी प्रश्न या शिकायत एनएसईएल को evoting@nsdl.co.in पर ईमेल द्वारा या टोल फ्री नंबर: 1800 1020 990 पर कॉल करके संबोधित किया जा सकता है। सदस्य कंपनी को cs@grmrice.com पर भी लिख सकते हैं।

बोर्ड की आज्ञानुसार
जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड के लिए
हस्ता/-
सचिव नारांग
कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

दिनांक: 10.02.2024

स्थान: नई दिल्ली

UFLEX यूप्लैक्स लिमिटेड
"A part of your daily life"
CIN: L74899DL1988PLC032166
रजिस्टर्ड ऑफिस: 305, तीसरी मजिल, मानाट कॉर्नर, एम्प्लोय एन्क्लेव, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली, 110048
फोन: 91-11-26440917, 26440925 फैक्स: +91-11-26216922 वेबसाइट: www.uflexltd.com ई-मेल: secretaria@uflexltd.com

31.12.2023 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह के अर्न्तर्गत समेकित एवं स्टैंडअलोन वित्तीय परिणाम

क्र. सं.	विवरण	समेकित					
		31.12.2023 को समाप्त तिमाही (अर्न्तर्गत)	30.09.2023 को समाप्त तिमाही (अर्न्तर्गत)	31.12.2022 को समाप्त तिमाही (अर्न्तर्गत)	31.12.2023 को समाप्त नौ माह (अर्न्तर्गत)	31.12.2022 को समाप्त नौ माह (अर्न्तर्गत)	31.03.2023 को समाप्त वर्ष (अर्न्तर्गत)
1.	कुल आय	334538	338946	349640	1001306	1139098	1478449
2.	अवधि के लिए कर पूर्व लाभ / (हानि) असाधारण मदों से पूर्व	6091	10978	89	17932	71869	80605
3.	असाधारण मद (संदर्भ नोट सं0 2)	10005	-	8417	48160	8417	15000
4.	अवधि के लिए कर पूर्व लाभ / (हानि)	(3914)	10978	(8328)	(30228)	63452	65605
5.	अवधि के लिए कर परश्चात शुद्ध लाभ / (हानि)	(6727)	6331	(8547)	(42021)	47993	48076
6.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) गैर-नियंत्रित हिस्से के परश्चात	(6722)	6331	(8541)	(42009)	47980	48068
7.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय	15109	(8602)	4825	(11825)	78871	83134
	अवधि के लिए कुल व्यापक आय निम्नानुसार संबंधित						
	होलिंग कंपनी का स्वामित्व	15114	(8602)	4831	(11813)	78858	83126
	गैर-नियंत्रित हिस्से	(5)	-	(6)	(12)	13	8
8.	समतुल्य अंश पूंजी	7221	7221	7221	7221	7221	7221
9.	अन्य समतुल्य गैर-नियंत्रित हिस्से के अतिरिक्त, पूर्व वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार	742394	742394	661435	742394	661435	742394
10.	प्रति शेयर आय (₹ में) (अवधि/कुल मूल तंत्र)	(9.31) (9.31)	8.77 8.77	(11.83) (11.83)	(58.18) (58.18)	66.45 66.45	66.57 66.57

क्र. सं.	विवरण	स्टैंडअलोन					
		31.12.2023 को समाप्त तिमाही (अर्न्तर्गत)	30.09.2023 को समाप्त तिमाही (अर्न्तर्गत)	31.12.2022 को समाप्त तिमाही (अर्न्तर्गत)	31.12.2023 को समाप्त नौ माह (अर्न्तर्गत)	31.12.2022 को समाप्त नौ माह (अर्न्तर्गत)	31.03.2023 को समाप्त वर्ष (अर्न्तर्गत)
1.	कुल आय	165893	165057	171343	498068	513039	681701
2.	अवधि के लिए कर पूर्व लाभ / (हानि)	3029	2918	6032	13241	20903	31712
3.	अवधि के लिए कर परश्चात शुद्ध लाभ / (हानि)	2374	2089	4936	9962	16102	24372
4.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय	2382	2224	5020	10042	16187	24264
5.	समतुल्य अंश पूंजी	7221	7221	7221	7221	7221	7221
6.	अन्य समतुल्य गैर-नियंत्रित हिस्से के अतिरिक्त, पूर्व वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार	283093	283093	260995	283093	260995	283093
7.	प्रति शेयर आय (₹ में) (अवधि/कुल मूल तंत्र)	3.29 3.29	2.89 2.89	6.84 6.84	13.80 13.80	22.30 22.30	33.75 33.75

- नोट:-
- उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में जमा किए गए 31 दिसम्बर 2023 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह के अर्न्तर्गत, समेकित एवं स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के विस्तृत प्रारूप का सारकित अंश है। 31 दिसम्बर 2023 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह के अर्न्तर्गत, समेकित एवं स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों (www.nseindia.com, www.bseindia.com) तथा कंपनी की वेबसाइट (www.uflexltd.com) पर उपलब्ध है।
 - स्टैंडअलोन बैंक ऑफ नाइजीरिया (सीबीएन) ने जून 2023 में नाइजीरियाई विदेशी मुद्रा बाजार के अन्तर्गत संचालन में महत्वपूर्ण बदलाव किया है और निवेशकों और निर्यातकों (आई एंड ई) विंडो पर इच्छुक क्रेता और इच्छुक विक्रेता मॉडल को फिर से प्रस्तुत किया। फलस्वरूप नाइजीरियाई नायरा में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले समग्र 62% और 15% का अवमूल्यन क्रमशः 30 जून 2023 को समाप्त तिमाही और 31 दिसम्बर 2023 को समाप्त तिमाही को किया है जिसके परिणामस्वरूप संबंधित तिमाही में सॉफ्टवेयरिक कंपनी फलस्वरूप फिल्टर अक्रोका प्रा. लिमिटेड, नाइजीरिया, में विदेशी मुद्रा में क्रमशः रुपये 38155 लाख और रुपये 10005 लाख का घाटा हुआ है और 31 दिसम्बर 2023 को समाप्त नौ माह में रुपये 48160 लाख का घाटा हुआ है जिसे, संबंधित अवधि के लिए एक असाधारण मद के रूप में दिखाया गया है।

कृते यूप्लैक्स लिमिटेड
हस्ता/-
अशोक चतुर्वेदी
(चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक)
DIN - 00023452

स्थान: नोएडा
दिनांक: 10 फरवरी 2024

PROGRESSIVE FINLEASE LIMITED						
CIN: L65910DL1995PLC064310						
Regd. Office: 500, 5th Floor, IITL Twin Tower, Netaji Subhash Place, Pitampura, Delhi North Delhi DL 110034 IN						
Email: info@progressivefinlease.in , Website: www.progressivefinlease.in						
Statement of Unaudited Standalone Financial Results for the Quarter ended 31 st December 2023 (Amount in lakh)						
S. No.	PARTICULARS	Quarter ended			Year Ended	
		30.12.2023 (UnAudited)	30.09.2023 (UnAudited)	31.12.2022 (UnAudited)	31.12.2023 (UnAudited)	31.03.2023 (Audited)
1	Total income from operations	6.72	6.65	19.58	18.89	42.67
2	Net profit/(loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	(1.79)	1.96	(43.50)	(0.98)	(44.00)
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(1.79)	1.96	(43.50)	(0.98)	(44.00)
4	Net profit/(loss) for the period after Tax/After Exceptional and/or Extra ordinary Items	(1.79)	1.96	(43.50)	(0.98)	(44.00)
5	Paid-up Equity Share Capital	894.70	894.70	894.70	894.70	894.70
6	Reserve excluding Revaluation Reserve	104.84	106.63	61.54	104.84	61.54
7	Earning Per Share(Of ₹10/- each share) (for continuing and discontinued operation)					
	(a) Basic	(0.02)	0.02	(0.49)	(0.01)	(0.49)
	(b) Diluted					

Note: The Above is an extract of the detailed format of Half year ended financial results filed with the Stock Exchange under Reg 33 of SEBI (LODR), 2015. The full formats are available on Stock Exchange websites and on Company's website.

By Order of the Board
FOR PROGRESSIVE FINLEASE LIMITED

RAJEEV JAIN
Managing Director
DIN-8348127

Date: 10.02.2024
Place: Delhi

JATALIA GLOBAL VENTURES LIMITED						
Regd. Office: 500, 5th Floor, IITL Twin Tower, Netaji Subhash Place, Pitampura, Delhi North Delhi DL 110034 IN						
Email: info@jatalia.in , CIN: L74899DL1991PLC045678						
Statement of Unaudited Standalone Financial Results for the Quarter ended 31 st December, 2023 (Amount in lakh)						
S. No.	PARTICULARS	Quarter Ended			Year Ended	
		31.12.2023 (Unaudited)	30.09.2023 (Unaudited)	31.12.2022 (Unaudited)	31.12.2023 (Unaudited)	31.03.2023 (Audited)
1	Total income from operations	4.85	-	-	4.85	6.54
2	Net profit/(loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	(0.84)	(0.73)	(1,854.43)	(2.71)	(1,849.69)
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(1.12)	(0.73)	(1,854.45)	(3.01)	(1,909.06)
4	Net profit/(loss) for the period after Tax (After Exceptional and/or Extra ordinary Items)	(1.12)	(0.73)	(1,854.45)	(3.01)	(1,909.06)
5	Paid-up Equity Share Capital	1,497.56	1,497.56	1,497.56	1,497.56	1,497.56
6	Reserve excluding Revaluation Reserve	(1,700.54)	(1,699.42)	(1,704.29)	(1,700.54)	(1,704.29)
7	Earning Per Share(Of ₹10/- each share) (for continuing and discontinued operation)					
	(a) Basic	-	-	(1.24)	-	(1.27)
	(b) Diluted					

Note: The Above is an extract of the detailed format of quarter ended financial results filed with the Stock Exchange under Reg 33 of SEBI (LODR), 2015. The full formats are available on Stock Exchange websites and on Company's website.

By Order of the Board Jatalia Global Ventures Ltd
Sd/-
Anil Kumar Jain
Managing Director
DIN:0014661

Place: Delhi
Date: 10.02.2024

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.

Initial public offer of Equity Shares (as defined below) on the main board of the Stock Exchanges (defined below) in compliance with Chapter II of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended

PUBLIC ANNOUNCEMENT



GOLD PLUS GLASS INDUSTRY LIMITED



(Please scan this QR code to view the DRHP)

Our Company was incorporated as Gold Plus Glass Industry Limited at New Delhi as a public limited company under the Companies Act, 1956, pursuant to a certificate of incorporation dated December 15, 2005, issued by the Registrar of Companies, Delhi at New Delhi ("RoC"). Our Company was authorized to commence business under the Companies Act, 1956 pursuant to a certificate for commencement of business issued by the RoC on February 14, 2006. For details in relation to changes in the registered office of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" on page 262 of the Draft Red Herring Prospectus dated February 9, 2024 ("DRHP").

Registered and Corporate Office: 4th Floor, Kings Mall, Sector 10, Rohini, New Delhi 110 085, Delhi, India
Telephone: +91 11 6637 6000; Contact person: Rahul Kapoor, Company Secretary and Compliance Officer
E-mail: compliance@goldplusgroup.com; Website: www.goldplusgroup.com; Corporate Identity Number: U26109DL2005PLC143705

PROMOTERS OF OUR COMPANY: SUBHASH TYAGI, SURESH TYAGI, JIMMY TYAGI, AASHISH TYAGI, SUBHASH TYAGI FAMILY TRUST AND SURESH TYAGI FAMILY TRUST

INITIAL PUBLIC OFFER OF UP TO [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH ("EQUITY SHARES") OF GOLD PLUS GLASS INDUSTRY LIMITED ("COMPANY" OR "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE) ("OFFER PRICE") AGGREGATING UP TO ₹ [●] MILLION COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO [●] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹5,000 MILLION BY OUR COMPANY ("FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO 15,667,977 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ [●] MILLION ("OFFERED SHARES") AND UP TO 1,019,995 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ [●] MILLION BY SURESH TYAGI, UP TO 1,019,995 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ [●] MILLION BY JIMMY TYAGI (SURESH TYAGI AND JIMMY TYAGI, COLLECTIVELY REFERRED TO AS "PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS") AND UP TO 10,277,987 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ [●] MILLION BY PI OPPORTUNITIES FUND - I AND UP TO 3,350,000 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ [●] MILLION BY KOTAK SPECIAL SITUATIONS FUND (PI OPPORTUNITIES FUND - I) AND KOTAK SPECIAL SITUATIONS FUND, COLLECTIVELY REFERRED TO AS THE "INVESTOR SELLING SHAREHOLDERS" AND THE PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS AND THE INVESTOR SELLING SHAREHOLDERS TOGETHER REFERRED TO AS THE "SELLING SHAREHOLDERS" ("OFFER FOR SALE", AND TOGETHER WITH THE FRESH ISSUE, THE "OFFER").

"PIOF 1 holds 17,747,484 CCPS which will be converted to 17,747,484 Equity Shares prior to filing of the RHP with the RoC. The Equity Shares proposed to be offered by PIOF 1 as part of the Offer for Sale will include a portion of Equity Shares which will result upon conversion of 17,747,484 CCPS held by PIOF 1. Further, KSSF holds 3,000,000 CCDS which will be converted up to a maximum of 10,008,000 Equity Shares, prior to filing of the RHP with the RoC. The Equity Shares proposed to be offered by KSSF as part of the Offer for Sale will include a portion of Equity Shares which will result upon conversion of 3,000,000 CCDS held by KSSF.

THIS OFFER INCLUDES A RESERVATION OF UP TO [●] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ [●] MILLION (CONSTITUTING UP TO [●] % OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY) FOR SUBSCRIPTION BY ELIGIBLE EMPLOYEES (THE "EMPLOYEE RESERVATION PORTION"). OUR COMPANY IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGERS, AND IN ACCORDANCE WITH APPLICABLE LAW MAY OFFER A DISCOUNT OF UP TO [●] % TO THE OFFER PRICE (EQUIVALENT OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE) TO ELIGIBLE EMPLOYEES BIDDING UNDER THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION ("EMPLOYEE DISCOUNT"), SUBJECT TO NECESSARY APPROVALS AS MAY BE REQUIRED. THE OFFER LESS THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION IS HERINAFTER REFERRED TO AS THE "NET OFFER". THE OFFER AND THE NET OFFER WILL CONSTITUTE AT LEAST [●] % AND [●] % OF OUR POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL, RESPECTIVELY.

OUR COMPANY MAY, IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGERS ("BRLMS"), CONSIDER A FURTHER ISSUE OF SPECIFIED SECURITIES AS MAY BE PERMITTED UNDER APPLICABLE LAW, TO ANY PERSON(S), AGGREGATING UP TO [●] EQUITY SHARES UP TO ₹ 1,000 MILLION, AT ITS DISCRETION, PRIOR TO FILING OF THE RED HERRING PROSPECTUS WITH THE RoC ("PRE-IPO PLACEMENT"). THE PRE-IPO PLACEMENT, IF UNDERTAKEN, WILL BE AT A PRICE TO BE DECIDED BY OUR COMPANY IN CONSULTATION WITH THE BRLMS. IF THE PRE-IPO PLACEMENT IS UNDERTAKEN, THE AMOUNT RAISED PURSUANT TO THE PRE-IPO PLACEMENT WILL BE REDUCED FROM THE FRESH ISSUE, SUBJECT TO COMPLIANCE WITH RULE 19(2)(B) OF SCRR.

THE FACE VALUE OF EQUITY SHARES IS ₹ 10 EACH. THE OFFER PRICE IS [●] TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. THE OFFER PRICE BAND, THE EMPLOYEE DISCOUNT AND THE MINIMUM BID LOT WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGERS AND IN ACCORDANCE WITH APPLICABLE LAW, AND WILL BE ADVERTISED IN ALL EDITIONS OF AN ENGLISH NATIONAL DAILY NEWSPAPER, [●] AND ALL EDITIONS OF A HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPER, [●] (HINDI ALSO BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF NEW DELHI, WHERE OUR REGISTERED AND CORPORATE OFFICE IS LOCATED) EACH WITH WIDE CIRCULATION, AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/OFFER OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO BSE LIMITED ("BSE") AND THE NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("NSE"), AND TOGETHER WITH THE BSE, THE "STOCK EXCHANGES") FOR THE PURPOSE OF UPLOADING ON THEIR RESPECTIVE WEBSITES.

In case of any revision to the Price Band, the Bid/Offer Period will be extended by at least three additional Working Days following such revision of the Price Band, subject to the Bid/Offer Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company, in consultation with the Book Running Lead Managers and in accordance with Applicable Law, may for reasons to be recorded in writing, extend the Bid/Offer Period for a minimum of three Working Days, subject to the Bid/Offer Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band and the revised Bid/Offer Period, if applicable, will be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges, by issuing a public notice, and also by indicating the change on the respective websites of the Book Running Lead Managers and at the terminals of the Syndicate Members and by intimation to Self-Certified Syndicate Banks ("SCSBs"), other Designated Intermediaries and the Sponsor Bank(s), as applicable.

This Offer is being made in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("SCRR") read with Regulation 31 of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended ("SEBI ICDR Regulations"). The Offer is being made in accordance with Regulation 6(1) of the SEBI ICDR Regulations and through a book building process wherein not more than 50% of the Net Offer shall be available for allocation to a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs"), and such portion, the "QIB Portion", provided that our Company, in consultation with the Book Running Lead Managers and in accordance with Applicable Law, may allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis in accordance with the SEBI ICDR Regulations ("Anchor Investor Portion"), out of which at least one-third shall be reserved for allocation to domestic Mutual Funds only, subject to valid Bids being received from the domestic Mutual Funds at or above the price at which allocation is made to Anchor Investors ("Anchor Investor Allocation Price"), in accordance with the SEBI ICDR Regulations. In the event of under-subscription, or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the Net QIB Portion (defined hereinafter). Further, 5% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only, and the remainder of the QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIB Bidders other than Anchor Investors, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5% of the Net QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation will be added to the remaining QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, up to [●] Equity Shares aggregating to [●] million will be available for allocation to Eligible Employees, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. Further, not less than 15% of the Net Offer shall be available for allocation to Non Institutional Bidders such that: (a) one-third of the portion available to Non-Institutional Investors, shall be reserved for applicants with application size of more than ₹0.20 million and up to ₹1.00 million and (b) two-thirds